



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]

नई दिल्ली, बुधस्पातिवार, फरवरी 28, 2002/फाल्गुन 9, 1923

No. 52]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 28, 2002/PHALGUNA 9, 1923

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2002

राहत बांड

एफ सं. 4(5)-डब्ल्यू एण्ड एम./2002.—भारत सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि इस मंत्रालय की दिनांक 15, मार्च, 2001 की अधिसूचना 4(4)-डब्ल्यू एण्ड एम./2001 के साथ पठित दिनांक 3, मई, 1999 की अधिसूचना संख्या 4(1)-डब्ल्यू एण्ड एम./1999 में यथाविनिर्दिष्ट 8.5 प्रतिशत राहत बांडों की योजना निम्नानुसार आगे और संशोधित की जाएगी :—

I. इन बांडों की ब्याज दर 8.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की बजाय 1 मार्च, 2002 से 8 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। इन बांडों पर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से पश्च-परिपक्वता ब्याज भी मिलेगा।

II. विनिवेश की सीमा

बांडों में विनिवेश की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष होगी।

III. उपर्युक्त के परिणामस्वरूप, यह योजना 1 मार्च, 2002 से "8 प्रतिशत राहत बांड, 2002" के रूप में जानी जाएगी।

2. आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि 8.5 प्रतिशत राहत बांड, 2001 की बिक्री 28 फरवरी, 2002 से बन्द हो जाएगी। तथापि, प्राप्तकर्ता कार्यालयों द्वारा, ब्याज की दर के संबंध में उनके प्राप्त किए गए वैध आवेदन पत्रों को, 8.5 प्रतिशत राहत बांड योजना, 2001 के अन्तर्गत अभिदान माना जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से,
आलोक चतुर्वेदी, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2002

Relief Bonds

F. No. 4(5)-W&M/2002.—The Government of India hereby notifies that the Scheme of 8 5% Relief Bonds, 2001 as specified in this Ministry's Notification No. F 4(1)-W&M/1999 dated 3rd May, 1999 read with No. F 4(4)-W&FM/2001 dated 15th March, 2001 shall be subject to further amendment as follows :—

I The Bonds will bear interest at the rate of 8% per annum with effect from the 1st March 2002 instead of 8.5% per annum The Bonds will also carry post-maturity interest at the rate of 8% per annum.

II. Limit of investment

The maximum limit for investment in the Bonds shall be Rs. 2,00,000 per annum.

III. Consequent to the above, the Scheme shall be known as '8% Relief Bonds, 2002' with effect from the 1st March 2002.

2. It is further notified that the sale of 8.5% Relief bonds, 2001 shall cease from the 28th February, 2002. However, valid applications received by the Receiving Offices upto the date of receipt by them of the Government's decision regarding this reduction in the rate of interest shall be deemed to be subscription under the scheme of 8.5% Relief Bonds, 2001.

By Order of the President of India

ALOK CHATURVEDI, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2002

राहत बांड

एफ सं. 4(5)-डब्ल्यू एण्ड एम./2002(1).—भारत सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि

- (i) सं. एफ. 4(9)-डब्ल्यू एण्ड एम./92 दिनांक 6 नवंबर, 1992 के साथ पठित संख्या एफ. 4(31)-डब्ल्यू एण्ड एम./87 दिनांक 17 नवंबर, 1987,
- (ii) सं. एफ. 4(2)-डब्ल्यू एण्ड एम./93 दिनांक 10 मार्च, 1993,
- (iii) सं. एफ. 4(21)-डब्ल्यू एण्ड एम./93 दिनांक 2 सितम्बर, 1993 और सं. एफ. 4(21)-डब्ल्यू एण्ड एम./93 दिनांक 16 सितम्बर, 1993 के साथ पठित संख्या एफ. 4(31)-डब्ल्यू एण्ड एम./87 दिनांक 17 नवंबर, 1987,
- (iv) सं. एफ. 4(14)-डब्ल्यू एण्ड एम./95 दिनांक 29 सितम्बर, 1995 और के साथ पठित संख्या एफ. 4(2)-डब्ल्यू एण्ड एम./93 दिनांक 10 मार्च, 1993,
- (v) सं. एफ. 4(1)-डब्ल्यू एण्ड एम./99 दिनांक 1 जनवरी, 1999 के साथ पठित संख्या एफ. 4(14)-डब्ल्यू एण्ड एम./95 दिनांक 29 सितम्बर, 1995 और
- (vi) सं. एफ. 4(4)-डब्ल्यू एण्ड एम./2001 दिनांक 15 मार्च, 2001

की अधिसूचनाओं द्वारा जारी 9 प्रतिशत राहत बांड, 1987, 10 प्रतिशत राहत बांड, 1993, 9 प्रतिशत राहत बांड, 1993, 10 प्रतिशत राहत बांड, 1995, 9 प्रतिशत बांड, 1999 और 8.5 प्रतिशत राहत बांड, 2001 की स्कीमों के अन्तर्गत राहत बांडों पर परिपक्वता-पश्च ब्याज जो परिपक्व हो गए हैं परन्तु जिनका नकदीकरण नहीं हुआ है अथवा जो इसके बाद परिपक्व हो रहे हैं, के अधीन जारी राहत बांडों पर उनके अन्तर्गत लागू परिपक्वता-पश्च ब्याज की दर को बजाए 1 मार्च, 2002 से 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर देय होगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से,

आलोक चतुर्वेदी, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2002

Relief Bonds

F. No. 4 (5)—W & M/2002 (1) :—The Government of India hereby notifies that post-maturity interest on Relief Bonds issued under the Schemes of 9% Relief Bonds, 1987, 10% Relief Bonds, 1993, 9% Relief Bonds, 1993, 10% Relief Bonds, 1995, 9% Relief Bonds, 1999 and 8.5% Relief Bonds, 2001 vide Notifications.

- (i) No. F 4 (31)—W&M/87 dated 17th November, 1987 read with No. F. 4(9)—W&M/92 DATED 6TH November, 1992.
- (ii) No. F. 4 (2)—W&M/93 dated 10th March, 1993.
- (iii) No. F. 4 (31)—W&M/87 dated 17th November, 1987 read with No. F. 4 (21)—W&M/93 dated 2nd September, 1993 and No. F. 4 (21)—W&M/93 dated 16th September, 1993.
- (iv) No. F. 4 (2)—W&M/93 dated 10th March, 1993 read with No. F. 4 (14)—W&M/95 dated 29th September, 1995
- (v) No. F. 4 (14)—W&M/95 dated 29th September, 1995 read with No. F. 4 (1)—W&M/99 dated 1st January, 1999 and
- (vi) No. F. 4 (4)—W&M/2001 dated 15th March, 2001

Which have matured but not encashed or are maturing hereafter shall be payable at 8% per annum with effect from 1st March, 2002 instead of the rate of post-maturity interest applicable thereunder.

By Order of the President of India,

ALOK Chaturvedi, Director